

उपक्रमों में पहले से स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करनेमें कुछ अन्तर रहा है। यही बात गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ एककों के बारे में भी कही जा सकती है।

(ख) सरकार क्षमता के उपयोग में इस अन्तर का पता लगाने के लिये उच्चतम स्तर पर और अधिक ध्यान दे रही है और सरकार द्वारा उपक्रमों के अध्यक्षों को हिदायतें दे दी गई हैं कि क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की योजनाएं लागू करें। उन्हें बताये गए उपाय ये हैं :—

- (1) उन वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाना जिनकी मांग है और जिनमें ऐसे फालतू पुजे शामिल है जिनकी बार-बार मांग होती रहती है;
- (2) सरकार के विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जहां कहीं सम्भव हो सके उन वस्तुओं के अधिक आर्डर प्राप्त करना जिनका औद्योगिक उत्पादों की मांग पर सीधा असर पड़ता हो;
- (3) निर्यात को बढ़ावा देने तथा देश के अन्दर बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से बिक्री कला को जोरों से चलाने के लिये विक्रय को सुदृढ़ करना; और
- (4) विद्युत परियोजनाओं, इस्पाती ढांचे तथा भारी इंजीनियरी उद्योगों के क्षेत्र में 'टर्न की' आघार पर ठेके प्राप्त करने के लिये साब समूह का निर्माण करना।

Flag Board for Railway Employees

*1000. SHRI M. L. SONDHI: Will

the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Uttariya Railway Mazdoor Union has demanded a separate wage board for the Railway employees;

(b) whether the Union has also demanded non-introduction of automation to avoid retrenchment of staff; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). No reference has been received from the Union although there have been such demands from different quarters.

(c) Railway employees are servants of the Central Government and therefore their wages are determined on the same basis as is adopted for all Central Government employees. It will not, therefore, be appropriate to have a separate wage board for Railway employees only.

As regards automation, it is the policy to introduce it where it is found to be in the public interest, having regard to the results to be achieved. However, any such introduction of automation is accompanied with certain guarantees including non-retrenchment, designed to safeguard the interests of existing employees.

कपड़े की उत्पादन लागत

*1001. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : क्या बाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार कपड़े की उत्पादन लागत बढ़ रही है और उसका उत्पादन गिर रहा है;

(ख) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिलों के फंडेशन ने घागे और कपड़े पर उत्पादन